

**प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 16.10.2020**

**थाना जैतीपुर पुलिस को को मिली बड़ी सफलता,  
अवैध असलहा सहित 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार ।**

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के पर्यवेक्षण एव क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एव थानाध्यक्ष जैतीपुर के नेतृत्व मे थाना जैतीपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 15.11.2020 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम थाना क्षेत्र मे कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जुरायम , तलाश वाछित अपराधी व सदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन चैकिंग के दौरान गौहापुर पुल पर मोटरसाईकिल सवार दो अभियुक्त 1.जाफर पुत्र बाबूबक्श 2. जावेद पुत्र लाल मोहम्मद निवासीगण मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जिला शाहजहाँपुर को 300 ग्राम अफीम व 6 किलो डोडा पोस्त व एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मय एक मोटरसाईकिल टीवीएस एपाचे काले रंग की के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त गण से बरामद अफीम व डोडा पोस्त की बाजार कीमत लगभग एक लाख रुपये है । गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण :-**

1. जाफर पुत्र बाबूबक्स निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. जावेद पुत्र लाल मोहम्मद निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

**कार्यक्षेत्र:**

अभियुक्त उपरोक्त बेहद शातिर किस्म के अपराधी है जो अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त आस पास के ग्रामीण इलाको मे करते है तथा इसी से अवैध धन अर्जित करते है इनका यही पेशा है ।

**पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-**

1. मु0अ0स0 349/2020 धारा 8/18 एनडीपीएस थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0स0 350/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस एकट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. मु0अ0स0 351/2020 धारा 3/25 आर्म्स एकट थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

1. 300 ग्राम अफीम
2. 06 किलो डोडा पोस्त
3. एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. एक काले रंग की अपाचे मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन न0 UP27P 4490

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सहरावत थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
3. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1821 नासिर खान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर ।
5. का0 2300 अंकित नेहरा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 2307 उज्जवल बालियान थाना जैतीपुर शाहजहाँपुर